



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 27.09.2021

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 02 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 27.09.21 को थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 403/21 धारा 2(ख)(17)/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों 1.अजीज पुत्र स्व0 मुस्तफा 2-सलमान पुत्र अजीज निवासी गण ग्राम सिसौरा थाना फूलबेहड़ खीरी जनपद खीरी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

अभियुक्तों का विवरण

- 1-अजीज पुत्र स्व0 मुस्तफा
- 2-सलमान पुत्र अजीज सर्व निवासी गण ग्राम सिसौरा थाना फूलबेहड़ जिला खीरी।

पुलिस टीम

- 1-उ0नि0 महेन्द्र प्रताप यादव,
- 2- उ0नि0 गौरव सिंह
- 3- हे0का0 रमाकान्त राव
- 4-का0 यतेन्द्र कुमार
- 5-का0 कपिल कुमार

खीरी पुलिस की सक्रियता, संवेदनशीलता व साहसपूर्ण कार्य ने आत्महत्या हेतु शारदा नदी में कूदे व्यक्ति की बचाई जान



आज दिनांक 27.09.21 को थाना धौरहरा क्षेत्रान्तर्गत शारदा बैराज के पास एक व्यक्ति इकरार पुत्र बदलू (उम्र 30 वर्ष) निवासी मो० बाजार वार्ड कस्बा व थाना धौरहरा जनपद खीरी ने पारिवारिक समस्याओं से परेशान होकर आत्महत्या के इरादे से शारदा नदी में कूद गया।

तभी शारदा बैराज पर ड्यूटी पर तैनात थाना धौरहरा में नियुक्त मु०आ० जय प्रकाश, मु०आ० अनिल तिवारी, मु०आ० मृत्युंजय पांडेय एवं का० मो० फिरोज द्वारा अपनी जान की परवाह न करते हुए त्वरित कार्यवाही कर अदम्य साहस का परिचय देते हुए नदी में कूदकर उपरोक्त व्यक्ति को सकुशल नदी से बाहर निकालकर उपचार हेतु चिकित्सक के पास ले जाया गया जहां इकरार उपरोक्त का इलाज किया जा रहा है। घटना के बारे में महिला के परिवारीजन को सूचित कर दिया गया है। पुलिस की सक्रियता, संवेदनशीलता एवं इस साहसपूर्ण कार्य की स्थानीय जनता द्वारा मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की जा रही है।

थाना नीमगांव पुलिस द्वारा 1 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा सहित अभियुक्त शीबू पुत्र रफीउल्ला को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत को थाना नीमगांव पुलिस द्वारा अभियुक्त शीबू पुत्र रफीउल्ला नि० ग्राम भूड़वारा थाना गोला जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा व 01 अदद मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना नीमगांव पर मु०अ०सं० 296/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व 207 एमवी एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना भीरा पुलिस द्वारा अवैध चाकू सहित अभियुक्त रिकू कुमार पुत्र कल्लू को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत को थाना भीरा पुलिस द्वारा अभियुक्त रिकू कुमार पुत्र कल्लू निवासी गनहिया थाना भीरा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध छुरी बरामद की गई। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना भीरा पर मु०अ०सं० 361/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना गोला पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 504/21 धारा 363/366/504/506 भादवि व 3(2)(5) एससी एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त शाहरुख खान पुत्र बसारत खान नि0 हमीरढाबा थाना गोला जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

शराब के विरुद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 368 लीटर अवैध शराब सहित 20 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय दुल के निर्देशन में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **368 लीटर अवैध कच्ची शराब, 08 अवैध शराब भट्टी सहित बरामद कर 20 अभियुक्त** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **20 अभियोग** पंजीकृत किए गए।

क्र0सं0	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना निघासन	140 लीटर	07 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना सिंगाही	78 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना धौरहरा	40 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	कोतवाली सदर	30 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना मितौली	30 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
6.	थाना खीरी	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
7.	थाना धौरहरा	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
8.	थाना पलिया	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
9.	थाना पसगवां	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	368 लीटर	20 अभियुक्त गिरफ्तार